

उज्ज्वल भविष्य के
लिए निधियन

कार्य - निष्पादन विशेषताएं




30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एक महारत्न पीएसयू

विषय- सूची



A

पीएफसी – एक नजर

1. राष्ट्र के विकास को सशक्त बनाना
2. पीएफसी नई दिशाओं में
3. पीएफसी ग्रुप स्ट्रक्चर

B

समेकित कार्य-निष्पादन

1. समेकित विशेषताएं
2. मुख्य समेकित वित्तीय

C

एकल कार्य-निष्पादन

1. विशेषताएं
2. अर्जन अद्यतन
3. परिसंपत्ति गुणवत्ता
4. प्रचालन कार्य-निष्पादन
5. शेयरधारकों का दृष्टिकोण



पीएफ़सी एक नजर



राष्ट्र के विकास को सशक्त बनाने की दिशा में



भारत सरकार द्वारा
अधिकांश स्वामित्व



विद्युत क्षेत्र में सुधार और
विकास के लिए सरकार का
प्रमुख वित्तीय भागीदार



'एएए' की सबसे बड़ी
दीर्घकालिक घरेलू रेटिंग

→ भारत में सबसे बड़ा एनबीएफसी समूह

→ पीएफसी समूह- भारत में सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा
वित्त



#सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण
2021-22 के अनुसार शीर्ष 10
लाभ कमाने वाले सीपीएसई में
से एक"



#फॉर्च्यून 500
इंडिया 2022 में 34वां
स्थान

पीएफसी नई दिशाओं की ओर



» भारत के बुनियादी ढांचे के विकास को गति

- > जोखिम विविधीकरण के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण- इन्फ्रा बुक का निर्माण धीरे-धीरे किया जाएगा
- > प्रारंभिक फोकस राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के साथ जुड़ने पर है
- > अगस्त'22 से, पीएफसी ने 24,802 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए और 1,914 करोड़ रुपये संवितरित किए।



"Nayi Soch Nayi Raahein"


नई सोच नई राहें



» पीएफसी- भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा के लिए वित्तपोषण उत्प्रेरक

- > पीएफसी ने भारत की स्थापित नवीकरणीय क्षमता का लगभग 25% समर्थन किया है और इसका लक्ष्य इस बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखना है।
- > ऊर्जा भंडारण - बैटरी और पंप हाइड्रो, ई-मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन आदि जैसी स्वच्छ और उभरती प्रौद्योगिकियों में वित्त पोषण के अवसरों का लाभ उठाने पर सक्रिय ध्यान केंद्रित करना।

पीएफसी समूह संगठक





समेकित कार्य-निष्पादन



समेकित कार्य-निष्पादन



कर पश्चात लाभ में 29% की वृद्धि दर्ज की गई

- छ1'24 में 12,610 करोड़ रुपये बनाम छ1'23 में 9,809 करोड़ रुपये

समेकित शुद्ध एनपीए अनुपात 1% से नीचे पहुंचा

- छ1'24 में शुद्ध एनपीए अनुपात 0.98% बनाम छ1'23 में 1.27%
- छ1'24 में सकल एनपीए अनुपात 3.40% बनाम छ1'23 में 4.38%



समेकित निवल मूल्य में 21% की वृद्धि(1)

- 30.09.2023 को 1,23,703 करोड़ रुपये बनाम 30.09.2022 को 1,02,280 करोड़ रुपये

समेकित ऋण परिसंपत्ति बही 9 लाख करोड़ रुपये के पार

- 30.09.2023 को 9,23,724 करोड़ रुपये बनाम 30.09.2022 को 7,71,119 करोड़ रुपये, 20% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।



विलंबित भुगतान अधिभार नियमों पर अद्यतन

- अब तक, पीएफसी समूह ने देर से भुगतान अधिभार नियमों के तहत संचयी रूप से 1,24,237 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए हैं और 62,473 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं।

मुख्य समेकित वित्तीय



(Rs.crore)

	ति2 विव 24	ति1 विव 24	ति2 विव 23	छ1 24	छ1 23
✓ ब्याज आय	22,095	20,816	19,225	42,911	37,531
✓ ब्याज व्यय	14,313	13,670	11,413	27,983	22,250
✓ निवल ब्याज आय	7,782	7,146	7,812	14,928	15,281
✓ कर पश्चात लाभ	6,628	5,982	5,229	12,610	9,809
✓ कुल समेकित आय	7,475	6,289	4,185	13,763	7,878

एकल कार्य-निष्पादन




1.विशेषताएं




एकल कार्य-निष्पादन

छ1'24 परिप्रेक्ष्य में




छ1'24 के लिए पीएटी में 34% की वृद्धि

- छ1'24 में 6,854 करोड़ रुपये बनाम छ1'23 में 5,108 करोड़ रुपये



साल-दर-साल मजबूत पूंजी संकेतक

- छ1'24 के लिए सीआरएआर 24.86%, टियर 1 के साथ 22.35% बनाम छ1'23 के लिए 24.29%
- 30.09.2023 को शुद्ध संपत्ति 74,445 करोड़ रुपये है, जो 30.09.2022 को 62,860 करोड़ रुपये है, जो 18% की वृद्धि है।



डिस्कॉम योजनाओं में ठोस प्रगति

एलपीएस पर अद्यतन (1)

- एलपीएस के तहत 30.09.2023 तक 70,499 करोड़ रुपये स्वीकृत और 31,508 रुपये वितरित किए गए(1)
- एलपीएस(1) के कार्यान्वयन के साथ, विरासत बकाया 50% से अधिक कम हो गया है

आरडीएसएस पर अद्यतन (2)

- आरडीएसएस के तहत पीएफसी वाले 12 राज्यों के लिए कार्ययोजना को मंजूरी(2)
- काउंटर-पार्टी फंडिंग के लिए आरडीएसएस के तहत 11,544 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए



संवितरण में 2.5 गुना उछाल

- छ1'24 में 55,562 करोड़ रुपये जबकि छ1'23 में 21,790 करोड़ रुपये संवितरित किये गये।
- यह वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के तहत डिस्कॉम को ऋण देने से प्रेरित है

2. અર્જન સંબંધી અપડેટ



એકલ કાર્ય-નિષ્પાદન

राजस्व एवं वृद्धि



(Rs.crore)

	ति2 विव 24	ति1 विव 24	ति2 विव 23	छ1 24	छ1 23
✓ ब्याजगत आय	10,692	10,124	9,533	20,816	18,462
✓ ब्याजगत व्यय	6,963	6,621	5,685	13,584	11,146
✓ निवल ब्याज आय	3,729	3,503	3,848	7,232	7,316
✓ कर पश्चात लाभ	3,847	3,007	2,999	6,854	5,108
✓ कुल संचयी आय	4,278	3,131	2,768	7,409	4,663

मुख्य अनुपात



(Ratios in %)

	H1 24	FY 23	H1 23
✓ अर्जित परिसंपत्तियों पर लाभ	9.92	10.04	10.02
✓ निधियों की लागत	7.41	7.51	7.30
✓ अर्जित परिसंपत्तियों पर ब्याज स्प्रेड	2.51	2.53	2.72
✓ अर्जित परिसंपत्तियों पर निवल ब्याज मार्जिन	3.37	3.36	3.51
✓ सीआरएआर	24.86	24.37	24.29
✓ नेट वर्थ (शेयर पूंजी + सभी रिजर्व)	74,445 रुपए करोड़	68,202 रुपए करोड़	62,860 रुपए करोड़

3. परिसंपत्ति गुणवत्ता



एकल कार्य-निष्पादन

परिसंपत्ति स्नैपशॉट



पिछले एक वर्ष में एनपीए में शून्य वृद्धि




नवीकरणीय ऋण बहि (1) छ1'23 से 37% तक उल्लेखनीय रूप से वृद्धि

सरकारी क्षेत्र

82%

सरकारी क्षेत्र को अधिकांश ऋण



प्राइवेट सेक्टर

18%



ऋण परिसंपत्तियां

**4,49,458
करोड़ रुपए**



संवितरण

55,562 करोड़ रुपए



निवल एनपीए अनु
पात

1 %



नवीकरणीय ऋण
परिसंपत्ति पोर्टफोलियो

52,126 करोड़ रुपए¹


Robust asset quality




संपत्ति की गुणवत्ता में लगातार सुधार

घटती एनपीए प्रवृत्ति पीएफसी के सफल समाधान प्रयासों का प्रमाण है

शुद्ध एनपीए अनुपात 1% पर पहुंचा- पिछले 6 वर्षों में सबसे कम



स्नैपशॉट का प्रावधान -30.09.2023



सरकारी क्षेत्र

प्राइवेट सेक्टर

कुल बकाया

कुल प्रावधान

निवल संपत्ति

3,70,077

62,895

4,32,972

3,943

4,29,029

शून्य

16,487

16,487

12,006

4,481

3,70,077

79,381

4,49,458

15,949

4,33,509

बकाया ऋण परिसंपत्तियाँ

(Rs. crore)

चरण I & II

चरण III

TOTAL

30.09.2023 तक प्रावधान स्थिति



चरण III परिसंपत्तियों (एनपीए) के निमित्त 73% प्रावधान

चरण III

(सकल ऋण परिसंपत्तियों के % के रूप में)

उत्कृष्ट चरण III (IN %)

Government Sector

NIL

Private Sector

3.67%

GROSS STAGE III (IN %)

3.67%

TOTAL PROVISIONING (IN %)

73%

NET STAGE III ASSETS (IN %)

1%

Resolution Status- चरण III परिसंपत्तियां

Resolution status of Rs.16,497 cr. of loan assets in Stage 3

एनसीएलटी समाधान



13 परियोजनाएं - 13,899 करोड़ रुपए



77% प्रावधान

एनसीएलटी के बाहर



9 परियोजनाएं - 2,588 करोड़ रुपए



52% प्रावधान

पिछले 6 वर्षों में 1% का सबसे कम शुद्ध एनपीए अनुपात

4. प्रचालनगत कार्य-निष्पादन




एकल कार्य-निष्पादन

ऋण परिसंपत्ति – संघटक

(Rs crore)

	30.09.2023 तक	30.09.2022 तक
सकल ऋण परिसंपत्तियां	4,49,458	3,76,696
योजना-वार		
उत्पादन		
- परंपरागत उत्पादन	2,29,421	2,14,781
- नवीकरणीय ऊर्जा		
• बड़ी जल विद्युत परियोजना (>25 मेगावाट)	1,77,296	1,76,799
- सौर/पवन और अन्य आरई परियोजनाएं	52,126	37,982
ट्रांसमिशन	32,404	28,671
संवितरण	1,79,311	1,31,002

Loan Asset Mix



संवितरण घटक

(Rs.crore)

	ति2 विव 24		ति2 विव 23		छ1 विव 24		छ1 विव 23	
	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
संवितरण	32,770	100%	17,147	100%	55,562	100%	21,790	100%
योजना वार								
उत्पादन	7,280	22%	8,942	52%	12,378	22%	11,884	54%
ट्रांसमिशन	266	1%	1,025	6%	2,346	4%	1,442	7%
संवितरण	22,779	70%	7,124	41%	37,773	68%	8,287	38%
अन्य	2,445	7%	56	0.33%	3,065	6%	177	0.81%
क्षेत्र वार								
सरकारी क्षेत्र	26,818	82%	11,941	70%	46,695	84%	14,919	68%
निजी क्षेत्र	5,952	18%	5,206	30%	8,867	16%	6,871	32%


30.09.2023 तक देयताएं मिश्रण

कुल एफसी पोर्टफोलियो पर 83%
विनिमय जोखिम हेज किया गया

5 वर्ष की अवशिष्ट परिपक्वता तक
एफसीएल के लिए 91% विनिमय
जोखिम बचाव



30.09.2023 तक
बकाया ऋण राशि 3,85,693
करोड़ रुपये




5. शेयरधारक दृष्टिकोण



एकल काय-निष्पादन

30.09.2023 शेयरधारक दृष्टिकोण



EPS (Annualized)
Rs.41.54



Price to Earning Ratio
6.06



Book Value Per Share
Rs.225.58



Price to Book Value Ratio
1.12



PFC issued bonus shares in the ratio of 1:4

Above ratios are for H1 FY'24 & are based on the last available closing share price from BSE as on the end of reporting period i.e. Rs. 251.90
Above ratios are computed after adjusting the impact of bonus shares issued in the ratio of 1:4

निवेशक संसाधन



वार्षिक रिपोर्ट



<https://www.pfcindia.com/Home/VS/72>

वित्तीय परिणाम



<https://www.pfcindia.com/Home/VS/73>



निवेशक घोषणाएँ



<https://www.pfcindia.com/Home/VS/10201>

Investor FAQs



<https://www.pfcindia.com/FAQ>



विद्युत क्षेत्र से
संबंधित हालिया
रिपोर्ट



<https://cea.nic.in/NEP>



<https://www.pfcapps.com//11th Integrated Rating>

Join us: @pfcindia



www.pfcindia.com

Contact Information



**Investor Relations
Team**



investorrelations@pfcindia.com



**Equity Share
Queries**



investorsgrievance@pfcindia.com



Bond Queries



54EC Bonds - 54ECinvestorcell@pfcindia.com
Other Bonds - bondsinvestorcell@pfcindia.com

Join us: @pfcindia



www.pfcindia.com

Disclaimer

The presentation is prepared based on consolidated/stand-alone un-audited financial statements of PFC for quarter ended 30.09.2023.

There is a possibility of Ind AS financial results and the additional disclosures to be updated, modified or amended because of adjustments which may be required to be made on account of introduction of new standards or its interpretation, receipt of guidelines or circulars from regulatory bodies and/or Reserve Bank of India

This presentation may contain statements which reflect Management's current views and estimates and could be construed as forward looking statements. The future involves uncertainties and risks that could cause actual results to differ materially from the current views being expressed. Potential uncertainties and risks include factors such as general economic conditions, currency fluctuations, competitive product and pricing pressures, industrial relations and regulatory developments.

We do not update forward-looking statements retrospectively. Such statements are valid on the date of publication and can be superseded.

Figures are regrouped / reclassified to make them comparable.

Analytical data' are best estimates to facilitate understanding of business and NOT meant to reconcile reported figures.

Answers will be given only to non-price sensitive questions.

This presentation is for information purpose only and does not constitute an offer or recommendation to buy or sell any securities of PFC. Any action taken by you on the basis of the information contained in the presentation is your responsibility alone and PFC or its directors or employees will not be liable in any manner for the consequence of such actions taken by you.